

नियम 18 (3) के अंतर्गत चल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में सूचना देने या पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फार्म

FORM FOR GIVING INTIMATION OR SEEKING PREVIOUS SANCTION UNDER RULE 18(3) FOR TRANSACTION IN RESPECT OF MOVABLE PROPERTY.

1	नाम, पदनाम और कर्मचारी कोड Name, Designation and Employee Code	:
2	वेतनमान एवं वर्तमान वेतन Scale of pay and present pay	:
3	आवेदन का उद्देश्य, हस्तांतरण के लिए स्वीकृति या हस्तांतरण की सूचना/Purpose of application Sanction for Transaction/intimation of transaction	:
4	क्या सम्पत्ति खरीदी जा रही है या बेची जा रही है Whether property is being acquired or disposed of.	:
5. a)	सम्पत्ति खरीदने या बेचने की संभावित तारीख Probable date of acquisition/disposal of property	:
6	यदि सम्पत्ति खरीदी ली गई है / बेच दी गई है तो हस्तांतरण की वास्तविक तारीख / If the property is already acquired disposed of, actual date of transaction.	:
a)	सम्पत्ति का विवरण (उदा:कार/स्कूटर/मोटरसाईकिल/ रेफ्रिजरेटर /रेडियोग्राम/ आभूषण /कर्ज बीमा पॉलिसी आदि Description of the property (Car / Scooter / Motor Cycle / Refrigerator / Radio / Radiogram / Jewelry / Loans / Insurance/ Policies etc.,	:
b)	मॉडल और रजिस्ट्रेशन नं. गाड़ी के मामले में, जहाँ कहीं भ आवश्यक हो / Model and Registration No. in Case of vehicles, where necessary.	:
7	खरीदने/ बेचने की विधि (खरीद बिक्री/उपहार/ बंधक पट्टे पर या अन्य रूप में) / Mode of acquisition / disposal (purchase/ sale/ gift / mortgage, lease or otherwise)	:
8	सम्पत्ति का विक्रय मूल्य/क्रय मूल्य (तोहफे के मामले में बाजार भाव)/ Sale/ Purchase price of the property (Market value in the case of gifts)	:
9	खरीद करने के मामले में धन का स्रोत जहाँ से धन लगाया गया /धन लगाने का प्रस्ताव है । In case of acquisition, source or sources from which financed / proposed to be financed.	:
a)	निजी बचत/ Personal savings.	:
b)	अन्य स्रोत विवरण सहित/ Other sources giving details	:
10	सम्पत्ति के निपटान के मामले में क्या इसको प्राप्त करते समय आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई थी/सूचना दी गई थी (स्वीकृति पावती की एक प्रति इसके साथ संलग्न करें) In case of disposal of property was requisite sanction/intimation obtained /given for its acquisition (A copy of the sanction/ acknowledgement should be attached)	:

11 a)	पार्टी का नाम और पता जिसके साथ लेनदेन किया करने का प्रस्ताव है।/ Name and address of the party with whom transaction is proposed to be made.	:
b)	क्या पार्टी आवेदक के रिश्तेदार? यदि हों तो रिश्तेदारी बताएँ Is the party related to the applicant? If so, state the relationship	:
c)	क्या आवेदक का उस पार्टी के साथ किसी भी समय कार्यालयीन तौर पर कोई लेन देन रहा है या निकट भविष्य में उनके साथ कोई लेनदेन की संभावना है / Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time or is the applicant likely to have any dealings with him, in the near future?	:
d)	पार्टी के साथ कार्यालयीन संबंध की प्रकृति? Nature of official dealings with party	:
e)	यह लेनदेन की व्यवस्था किस प्रकार की गई? (क्या किसी वैधानिक निकाय या गैर सरकारी एजेंसी या विज्ञापन या मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से? पूरा विवरण दें) How was the transaction arranged? (Whether through any statutory body or a private agency through advertisement or through friends and relatives. Full particulars to be given)	:
12	उपहार द्वारा प्राप्त करने के मामले में क्या के सि से (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त की गई थी। In case of acquisition by gift, whether sanction is Also required under Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1964.	:
13	अन्य कोई उपयुक्त बातें जिसका उल्लेख आवेदक करना चाहे. Any other relevant fact which the applicant may like to mention	:

घोषणा / DECLARATION

मैं, एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण सही हैं। अनुरोध है कि उपर बताई हुई सम्पत्ति मद संख्या 11 में बताए गए पार्टी से प्राप्त करने/बेचने की अनुमति प्रदान करें।

I, hereby declare that the particulars given above are true. I request that I may be given permission to acquire / dispose of property as declared above from/to the party whose name is mentioned in item 11 above.

अथवा / OR

मैं, एतदद्वारा मेरे द्वारा बताई गई संपत्ति को खरीदने/ बेचने की सूचना देता/ देती हूँ। मैं घोषणा करता करती हूँ कि उपर दिए गए विवरण सही हैं।

I, hereby intimate the proposed acquisition/ disposal of property by me as detailed above. I declare that the particulars given above are true.

स्थान/Station: Cochin-9

हस्ताक्षर /Signature

तारीख/Date: